



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2553]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

No. 2553]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

I Md ifjogu vkj jktekl ea=ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

dk-vk 33004/v½— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 285 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थीं, द्वारा कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 348.800 कि.मी. से 423.750 कि.मी. (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा से संगारेड्डी सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 मार्च, 2016 को "डेक्कन हेराल्ड" और "विजय वाणी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कियी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

वृद्धि

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 348.800 कि.मी. से 423.750 कि.मी. तक (महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा से संगारेड्डी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

Øe l d; k	ftys dk uke	Rkypd dk uke	xknd dk uke	l o d; k l d; k	Hkfe dk i dkj	Hkfe dh i dfr	{ks=Qy %oxl ehVj e d	fgrc) 0; fDr; k ds uke
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. बीदर	1. हुमनाबाद	11½ मन्xyxh	106 Part	निजी	शुष्क	1214	पुतलीबाई पत्नी इस्माइलसाब
				106 Part	निजी	शुष्क	1821	रसिदाबी पत्नी जानिमिय्या
				107	निजी	शुष्क	203	अजयकुमार पुत्र सिद्धारेड्डी
				108	निजी	शुष्क	2934	लीलाबाई पत्नी गणपतराव कुलकर्णी
				110 Part	निजी	शुष्क	709	पुतलीबाई पत्नी इस्माइलसाब
				110 Part	निजी	शुष्क	910	रसिदाबी पत्नी जानिमिय्या
				111 / 1	निजी	सिंचित	405	रमेश पुत्र शरणप्पा होसमनी R/o हुमनाबाद
						dy ; kx	8196	

[फा. सं. भाराप्र/एलए/आरओ-बीएनजी/कर्नाटक/कलबुरगी]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3300(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.285(E), dated 29th January, 2016, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four - laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 9 (now new NH No.65) on the stretch of land from Km.348.800 to Km.423.750 (Maharashtra/Karnataka Border to Sangareddy Section) in District Bidar in the State of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Deccan Herald” and “Vijaya Vani” both dated the 17.03.2016; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 348.800 to Km.423.750 (Maharashtra/Karnataka Border to Sangareddy Section) on the National Highway No.9 (now new NH No.65) in the state of Karnataka

Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Square metres	Name of Persons interested
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1. BIDAR	(1) HUMNABAD	(1) MANGALGI	106 Part	Private	Dry	1214	Puthalibee W/o Ismailsab
				106 Part	Private	Dry	1821	Raseedabee W/o Janimiyya
				107	Private	Dry	203	Ajayakumar S/o Siddareddy
				108	Private	Dry	2934	Leelabai W/o Ganapatrao Kulkarni
				110 Part	Private	Dry	709	Puthalibee W/o Ismailsab
				110 Part	Private	Dry	910	Raseedabee W/o Janimiyya
				111/1	Private	Irrigated	405	Ramesh S/o Sharanappa Hosamani R/o Humnabad
					GRAND TOTAL		8196	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/KALABURAGI]

RAJESH GUPTA, Dy Secretary